

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2024-25	2025	2026		2024-25	2025	2026	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	208	208	197	197	135	135	121	121
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	458011	443848	468420	484747	451305	438922	459585	476551
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	315675	287294	344451	369371	309414	282773	336474	361684
1.2 बैंकों से उधार राशि	112027	118234	81308	78565	111976	118149	81053	78512
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	30310	38320	42661	36811	29916	38000	42057	36355
2 अन्य के प्रति देयताएं	25053097	25090360	27450892	27741954	24557481	24603094	26914261	27195276
2.1 कुल जमाराशियाँ	23055487	23098180	25398756	25715492	22580601	22630598	24881954	25190145
2.1.1 माँग	2748263	2753855	3194033	3276458	2698049	2705279	3141415	3221327
2.1.2 मीयादी	20307224	20344326	22204723	22439035	19882552	19925320	21740540	21968818
2.2 उधार	920568	889316	920813	887695	915248	884179	916090	883014
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	1077042	1102863	1131324	1138766	1061632	1088317	1116217	1122118
3 रिजर्व बैंक से उधार	311466	229480	136073	124916	311466	229480	136073	124916
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	311466	229480	136073	124916	311466	229480	136073	124916
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेषराशि	985044	1031337	856579	841456	964289	1010913	838641	822459
4.1 उपलब्ध नकदी	84399	86176	84875	79738	81874	83724	82350	76655
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेषराशि	900645	945160	771704	761718	882415	927189	756290	745804
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	432645	414933	515936	533202	348496	335873	424652	431152
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	273720	261237	343322	349656	215801	206970	278787	281681
5.1.1 चालू खाते में	13239	13523	12231	13080	10619	10912	9588	10221
5.1.2 अन्य खातों में	260481	247714	331091	336575	205182	196058	269199	271460
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	44772	42526	52274	46980	25838	25496	35468	23925
5.3 बैंकों को अग्रिम	43856	44597	38975	45888	39504	39833	35428	41912
5.4 अन्य आस्तियां	70296	66574	81365	90678	67353	63574	74968	83634
6 निवेश	6850574	6830178	6990918	7130107	6697928	6676664	6816555	6956053
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6842024	6821889	6976618	7117057	6697298	6676060	6816054	6955551
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	8550	8289	14301	13051	630	604	500	502
7 बैंक ऋण	18708286	18667299	20969154	21252041	18243972	18202174	20475236	20751207
7ए खाद्यान्न ऋण	87145	96468	141269	134617	36531	45854	89295	82643
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	18370704	18334125	20557184	20833450	17909851	17872448	20065187	20334593
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	76523	75858	98715	101240	74963	74221	98704	101212
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	222320	218916	276782	280333	221059	217743	275480	279023
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	15357	15279	13197	13408	15122	15032	13002	13190
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	23382	23120	23275	23611	22977	22730	22865	23190

टिप्पणी: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, 15 दिसंबर 2025 से 'पखवाड़े' की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है। अब यह हर दूसरे शुक्रवार के बजाय महीने की 15 तारीख और महीने के अंतिम कैलेंडर दिन को माना जाएगा।